



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 22, 2002/फाल्गुन 3, 1923

No. 90]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 22, 2002/PHALGUNA 3, 1923

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

(शहरी विकास विभाग)

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2002

सा.का.नि. 107(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय (शहरी विकास विभाग), केन्द्रीय इंजीनियरी (सिविल) समूह 'क' सेवा नियम, 1996 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को शहरी कार्य और गरीबी उपशमन मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) केन्द्रीय इंजीनियरी (सिविल) समूह 'क' सेवा (संशोधन) नियम, 2002 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय (शहरी विकास विभाग), समूह 'क' सेवा नियम, 1996 में, (जिन्हें यहां इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा) नियम 7, खंड (iii) में—

(i) उप-खंड (क) के लिए निम्नलिखित उप-खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(क) पदोन्नति के लिए अधिकारी का चयन, अनुसूची 4 में यथा उल्लिखित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा योग्यता के आधार पर किया जाएगा, जिसमें सहायक कार्यपालक इंजीनियर को कार्यपालक इंजीनियर के पद पर तथा कार्यपालक इंजीनियर को कार्यपालक इंजीनियर (नान-फंक्शनल कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड)* के पद पर नियुक्ति करना शामिल नहीं होगा।”

(ii) उप-खंड (ग) के लिए निम्नलिखित उप-खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) कार्यपालक इंजीनियर की कार्यपालक इंजीनियर नान-फंक्शनल कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के पद पर नियुक्ति वरीयता के क्रम से की जाएगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उनके समग्र कार्य-निष्पादन, अनुभव तथा अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखकर उनकी उपयुक्तता पर आधारित होगी।”

3. उक्त नियमों की अनुसूची 1 के लिए निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची 1 (देखिए नियम 3)

कालम (3) में दर्शाये गए पदों की संख्या में कुछ विभागों जैसे आयकर आदि में स्वीकृत पद भी शामिल हैं तथा केन्द्रीय इंजीनियरी (विद्युत तथा यांत्रिक) समूह "क" सेवा में सम्मिलित है।

क्र. सं. ड्यूटी पद और श्रेणी का नाम	पदों की संख्या*	वेतनमान
1. मुख्य इंजीनियर (सिविल)	40	18400-500-22400/-
2. अधीक्षण इंजीनियर (सिविल)	130	14300-400-18300/-
3. कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) (नान-फंक्शनल कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड)	200**	12000-375-16500/-
4. कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)	294	10000-325-15200/-
5. सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)	60	8000-275-13500/-
6. सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) (छुट्टी आरक्षित)	20	8000-275-13500/-

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

** नान-फंक्शनल कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदों की संख्या काडर में वरिष्ठ पदों के 30% तक सीमित होगी।

टिप्पणी : मुख्य इंजीनियर के तीन पद तथा अधीक्षण इंजीनियर के छः पद केन्द्रीय इंजीनियरी (सिविल) ग्रुप 'क' सेवा तथा केन्द्रीय इंजीनियरी (विद्युत तथा यांत्रिक) ग्रुप 'क' सेवा के लिए कामन काडर पद हैं।

4. उक्त नियमों की अनुसूची-2 में क्र. सं.-2 तथा 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रमांक तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी :—

(1) (2)	(3)	(4)
2. अधीक्षण इंजीनियर (सिविल)	पदोन्नति द्वारा (चयन एवं योग्यता)	कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) 10000-325-15200 रु. के वेतनमान में नौ साल की नियमित सेवा जिसमें 12000-375-16500 रु. के वेतनमान में नान-फंक्शनल (कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) में की गई सेवा भी शामिल है तथा इस सेवा के लिए विद्यमान सेवा नियमों में निर्धारित शैक्षिक अर्हता रखता हो।
3. कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) (नान-फंक्शनल प्रशासनिक ग्रेड)	पदोन्नति द्वारा	कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) 10000-15200 रु. के वेतनमान में पांच साल की नियमित सेवा।

5. उक्त नियमों की अनुसूची-4 में क्र. सं.-2 तथा 3 के लिए और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रमांक तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी :—

(1) (2)	(3)	(4)
*2. अधीक्षण इंजीनियर (सिविल)	1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग 2. निर्माण महानिदेशक—सदस्य 3. अपर सचिव/संयुक्त सचिव शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय—सदस्य	लागू नहीं
3. कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) (नान-फंक्शनल कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड)	1. निर्माण महानिदेशक—सदस्य 2. अपर सचिव/संयुक्त सचिव शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय—सदस्य	लागू नहीं

[फा. सं. 28/4/2001-एस. एंड जी./ई डब्ल्यू 1]

मेहर सिंह, अवसर सचिव

टिप्पणी :—इसके मूल नियम दिनांक 28-10-1996 के सा. का. नि. सं. 501(5) के अंतर्गत भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION**(Department of Urban Development)**

New Delhi, the 24th January, 2002

G.S.R. 107(E).—In exercise of the power conferred by the proviso article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following amendment to the Ministry of Urban Affairs and Employment (Department of Urban Development) Central Engineering (Civil) Group 'A' Services Rules, 1996, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Urban Affairs and Employment (Department of Urban Development) Central Engineering (Civil) Group 'A' Service (Amendment) Rules, 2002
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Ministry of Urban Affairs and Employment (Department of Urban Development) Central Engineering (Civil) Group 'A' Services Rules, 1966 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 7, in clause (iii);
 - (i) for sub-clause (a), the following sub-clause shall be substituted, namely :—
“(a) The selection of officer for promotion shall be made by the departmental promotion committee as specified in Schedule-IV, by selection on merit except in the case of promotion of the Assistant Executive Engineer to the post of the Executive Engineer and of the Executive Engineer for appointment to the post of the Executive Engineer (Non-functional Junior Administrative Grade);”.
 - (ii) for sub-clause (c), the following sub-clause shall be substituted, namely :—
“(c) placement of Executive Engineer in the post of Executive Engineer (Non-Functional Junior Administrative Grade) shall be in the order of seniority based on their suitability taking into account their over all performance, experience and other related matters as per guidelines issued by the Government from time to time;”.
3. For Schedule I to the said rules, the following Schedule shall be substituted namely :—

“Schedule—I**(See rule 3)**

No. of Posts indicated in column (3) also includes posts sanctioned in some departments such as income tax, etc. and are encadred in the Central Engineering (Civil) Group 'A' Service

Sl. No.	Name of duty Post & Grade	No. of posts*	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Chief Engineer (Civil)	40	Rs. 18400-500-22400/-
2.	Superintending Engineer (Civil)	130	Rs. 14300-400-18300/-
3.	Executive Engineer (Civil) (Non Functional Junior Administrative Grade)	200**	Rs. 12000-375-16500/-
4.	Executive Engineer (Civil)	294	Rs. 10000-325-15200/-
5.	Assistant Executive Engineer (Civil)	60	Rs. 8000-275-13500/-
6.	Assistant Executive Engineer (Civil) (Leave Reserve)	20	Rs. 8000-275-13500/-

* Subject to variation dependent on workload.

** Number of posts in Non-functional Junior Administrative Grade shall be limited to 30% of the Senior duty post in the Cadre”.

Note : Three posts of Chief Engineer and Six posts of Superintending Engineers are common Cadre posts for the Central Engineering (Civil) Group 'A' service and Central Engineering Electrical and Mechanical Group 'A' service.

4. In Schedule II to the said rules, for Sl. Nos. 2 and 3, and the entries relating thereto, the following Sl. Nos. and entries shall be substituted namely :

(1)	(2)	(3)	(4)
"2.	Superintending Engineer (Civil)	By Promotion (Selection-cum Merit)	Executive Engineers (Civil) with nine years' regular service in the scale of Rs. 10000-325-15200 including service if any rendered in the non-functional (Junior Administrative Grade) in the pay scale of Rs. 12000-375-16500 and possessing educational qualification as prescribed in the existing Service Rules for the Services.
3.	Executive Engineer (Civil) (Non Functional Junior Administrative Grade)	By Promotion	Executive Engineers (Civil) with five years' regular service in the scale of Rs. 10000-15200".

5. In Schedule IV to the said rules, for the entries against Sl. Nos. 2 and 3, and the entries relating thereto, the following Sl. Nos. and entries shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"2. Superintending Engineer (Civil)	1. Chairman/Member Union Public Service Commission 2. Director General of Works 3. Additional Secretary/Joint Secretary, Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation	—Chairman —Member —Member	Not applicable
3. Executive Engineer (Civil) (Non Functional Junior Administrative Grade)	1. Director General of Works 2. Additional Secretary/Joint Secretary, Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation	—Chairman —Member	Not applicable".

[F. No. 28/4/2001-S&D/EW-1]

MEHAR SINGH, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide Number GSR 500(E), dated the 28th October, 1996.

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2002

सा.का.नि. 108(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय (शहरी विकास विभाग), केन्द्रीय इंजीनियरी (विद्युत और यांत्रिक) समूह 'क' सेवा नियम, 1996 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को शहरी कार्य और गरीबी उपशमन मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) केन्द्रीय इंजीनियरी (विद्युत और यांत्रिक) 'क' सेवा (संशोधन) नियम, 2002 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शहरी कार्य और गरीबी उपशमन मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) समूह 'क' सेवा नियम 1996 में, (जिन्हें यहां इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा) नियम 7, खंड (iii) में—

(i) उप-खंड (क) के लिए निम्नलिखित उप-खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"(क) पदोन्नति के लिए अधिकारी का चयन, अनुसूची-4 में यथा उल्लिखित विभागीय/पदोन्नति समिति द्वारा योग्यता के आधार पर किया जाएगा, जिसमें सहायक कार्यपालक इंजीनियर को कार्यपालक इंजीनियर के पद पर तथा कार्यपालक इंजीनियर को कार्यपालक इंजीनियर (नान-फंक्शनल कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) * के पद पर नियुक्ति करना शामिल नहीं होगा।

(ii) उप-खंड (ग) के लिए निम्नलिखित उप-खंड प्रस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) कार्यपालक इंजीनियर की कार्यपालक इंजीनियर नान-फंक्शनल कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के पद पर नियुक्ति वरीयता के क्रम से की जाएगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उनके समग्र कार्य-निष्पादन, अनुभव तथा अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखकर उनकी उपयुक्तता पर आधारित होगी।

3. उक्त नियमों की अनुसूची-1 के लिए निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची 1 (देखिए नियम 3)

कालम (3) में दर्शाये गए पदों की संख्या में कुछ विभागों जैसे आयकर आदि में स्वीकृत पद भी शामिल हैं तथा केन्द्रीय इंजीनियरी (विद्युत तथा यांत्रिक) समूह “क” सेवा में सम्मिलित हैं।

क्र. सं. ड्यूटी पद और श्रेणी का नाम	पदों की संख्या*	वेतनमान
1. मुख्य इंजीनियर (विद्युत तथा यांत्रिक)	06	18400-500-22400/-
2. अधीक्षण इंजीनियर (विद्युत तथा यांत्रिक)	36	14300-400-18300/-
3. अधीक्षण इंजीनियर (विद्युत तथा यांत्रिक) (नान-फंक्शनल कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड)	60**	12000-375-16500/-
4. कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत तथा यांत्रिक)	96	10000-325-15200/-
5. सहायक कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत तथा यांत्रिक)	15	8000-275-13500/-
6. सहायक कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत तथा यांत्रिक) (छुट्टी आरक्षित)	05	8000-275-13500/-

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

** नान-फंक्शनल कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदों की संख्या काडर में वरिष्ठ पदों के 30% तक सीमित होगी।

टिप्पणी : मुख्य इंजीनियर के तीन पद तथा अधीक्षण इंजीनियर के छः पद केन्द्रीय इंजीनियरी (सिविल) ग्रुप ‘क’ सेवा तथा केन्द्रीय इंजीनियरी (विद्युत तथा यांत्रिक) ग्रुप ‘क’ सेवा के लिए कामन काडर पद हैं।

4. उक्त नियमों की अनुसूची-2 में क्र. सं.-2 तथा 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रमांक तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी :—

(1) (2)	(3)	(4)
2. अधीक्षण इंजीनियर (विद्युत तथा यांत्रिक)	पदोन्नति द्वारा (चयन एवं योग्यता)	कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत तथा यांत्रिक) 10000-325-15200 रु. के वेतनमान में नौ साल की नियमित सेवा जिसमें 12000-375-16500 रु. के वेतनमान में नान-फंक्शनल (कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) में की गई सेवा भी शामिल है तथा इस सेवा के लिए विद्यमान सेवा नियमों में निर्धारित शैक्षिक अर्हता रखता हो।
3. कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत तथा यांत्रिक) (नान-फंक्शनल प्रशासनिक ग्रेड)	पदोन्नति द्वारा	कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत तथा यांत्रिक) 10000-15200 रु. के वेतनमान में पांच साल की नियमित सेवा।

5. उक्त नियमों की अनुसूची 4 में क्र. सं. 2 तथा 3 के लिये और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रमांक तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी :—

(1) (2)	(3)	(4)
“2. अधीक्षण इंजीनियर (विद्युत तथा यांत्रिक)	1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग 2. निर्माण महानिदेशक-सदस्य 3. अपर सचिव/संयुक्त सचिव शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय-सदस्य	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)
3. कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत तथा यांत्रिक) (नान-फंक्शनल कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड)	1. निर्माण महानिदेशक-सदस्य 2. अपर सचिव/संयुक्त सचिव शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय-सदस्य		लागू नहीं

[फा. स. 28/4/2001-एस एड डी./ई डब्ल्यू 1]

मेहर सिंह, अपर सचिव

टिप्पणी : इसके मूल नियम दिनांक 28-10-1996 के सा. का. नि. सं. 501(अ) के अंतर्गत भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2002

G.S.R. 108(E).—In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following amendment to the Ministry of Urban Affairs and Employment (Department of Urban Development) Central Engineering (Electrical and Mechanical) Group 'A' Services Rules, 1996, namely —

- 1 (1) These rules may be called the Ministry of Urban Affairs and Employment (Department of Urban Development) Central Engineering (Electrical and Mechanical) Group 'A' Service (Amendment) Rules 2002
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette
- 2 In the Ministry of Urban Affairs and Employment (Department of Urban Development) Central Engineering (Electrical and Mechanical) Group 'A' Services Rules, 1996 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 7, in clause (iii).—
 - (i) for sub-clause (a), the following sub-clause shall be substituted, namely —

“(a) The selection of officer for promotion shall be made by the departmental promotion committee as specified in Schedule-IV, by selection on merit except in the case of promotion of the Assistant Executive Engineer to the post of the Executive Engineer and of the Executive Engineer for appointment to the post of the Executive Engineer (Nonfunctional Junior Administrative Grade).”
 - (ii) for sub-clause (c), the following sub-clause shall be substituted, namely —

“(c) placement of Executive Engineer in the post of Executive Engineer (Non Function Junior Administrative Grade shall be in the order of seniority based on their suitability taking into account their over all performance, experience and other related matters as per guide lines issued by the Government from time to time.”
- 3 For Schedule I to the said rules, the following Schedule shall be substituted namely —

“Schedule I**(See rule 3)**

No. of Posts indicated in column (3) also includes posts sanctioned in some departments such as income tax, etc and are encadred in the Central Engineering (Electrical and Mechanical) Group “A” Service

Sl No	Name of duty Post and Grade	No. of posts*	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Chief Engineer (Electrical and Mechanical)	06	Rs 18400-500-22400/-
2	Superintending Engineer (Electrical and Mechanical)	36	Rs 14300-400-18300/-
3	Executive Engineer (Electrical and Mechanical) (Non Functional Junior Administrative Grade)	60**	Rs 12000-375-16500/-
4	Executive Engineer (Electrical and Mechanical)	96	Rs 10000-325-15200/-

(1)	(2)	(3)	(4)
5	Assistant Executive Engineer (Electrical and Mechanical)	15	Rs 8000-275-13500
6	Assistant Executive Engineer (Electrical and Mechanical) (Leave Reserve)	05	Rs 8000-275-13500

* Subject to variation dependent on workload

** Number of posts in Non-functional Junior Administrative Grade shall be limited to 30% of the Senior duty post in the Cadre

Note : Three posts of Chief Engineer and Six posts of Superintending Engineers are common Cadre posts for the Central Engineering (Civil) Group 'A' service and Central Engineering Electrical and Mechanical Group 'A' service

4 In Schedule II to the said rules, for SI Nos 2 and 3, and the entries relating thereto, the following SI Nos and entries shall be substituted, namely —

(1)	(2)	(3)	(4)
"2	Superintending Engineer (Electrical and Mechanical)	By promotion (Selection-cum-Merit)	Executive Engineers (Electrical and Mechanical) with nine years' regular service in the scale of Rs 10000-325-15200 including service if any rendered in the non-functional (Junior Administrative Grade) in the pay scale of Rs 12000-375-16500 and possessing educational qualification as prescribed in the existing Service Rules for the Services
3	Executive Engineer (Electrical and Mechanical) (Non-Functional Junior Administrative Grade)	By promotion	Executive Engineers (Electrical and Mechanical) with five years' regular service in the scale of Rs 10000-15200 "

5 In Schedule IV to the said rules, for SI Nos 2 and 3, and the entries relating thereto, the following SI Nos. and entries shall be substituted, namely —

(1)	(2)	(3)	(4)
"2	Superintending Engineer (Electrical and Mechanical)	1 Chairman/Member Union Public Service Commission 2 Director General of Works 3 Additional Secretary/Joint Secretary, Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation	Not applicable — Chairman — Member — Member
3	Executive Engineer (Electrical Mechanical) (Non-Functional Junior Administrative Grade)	1 Director General of Works 2 Additional Secretary/Joint Secretary, Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation	Not applicable — Chairman — Member

[F No 28/4/2001-S&D/EW-I]

MEHAR SINGH, Under Secy

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide Number GSR 501(E), dated the 28th October, 1996

